

ब्रेन इंटरनेशनल स्कूल

विषय-हिन्दी

कक्षा-6

assignment- जून(2021-22)

प्रश्न-1 निम्न गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें ।

जीवन में यदि हम कुछ बनना चाहते हैं तो आलस्य त्याग करने का प्रण लें तो बेहतर होगा क्योंकि आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है । यह शत्रु हमारी उन्नति के सभी द्वार बंद कर देता है । वेदों में कर्म करते हुए सौ वर्ष तक जीने की कामना की गई है । जब हम आलस्य पर विजय प्राप्त कर लेंगे , तभी उन्नति हमारे चरण चूमेगी । सुस्त और निद्राशील लोगों को तो देवता भी पसंद नहीं करते , क्योंकि देवता हमारी आस्था का जाग्रत रूप है । समय पर काम न करने वाले, व्यर्थ के विवादों में शक्ति और समय को बर्बाद करने वाले, सबका विश्वास खो देते हैं क्योंकि वे न तो अपने किसी वचन का निर्वाह कर सकते हैं और न दूसरों के मन में स्थान बना पाते हैं । इसलिए हमारी सबसे पहली आवश्यकता है समय और शक्ति का सदुपयोग । वह तभी संभव है जब हमारे मन में सभी तरह से केवल श्रेष्ठ विचार ही आएँ । कोई भी भला आदमी अपने घर में कूड़ा- कचरा नहीं भरना चाहेगा । हमारा मन भी वह पावन आवास है, जहाँ कुविचारों के कचरे के लिए जगह नहीं है ।

(क) आलस्य त्याग करने का प्राण क्यों आवश्यक है ?

(ख) सुस्त और निद्राशील लोगों को देवता भी क्यों पसंद हीं करते ?

(ग) किसी का विश्वास पात्र बनने के लिए क्या-क्या विशेषताएँ होनी चाहिए ?

(घ) मन को पावन आवास क्यों कहा गया है ?

(ङ) इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखें ।

प्रश्न-2 निम्न प्रश्नों के उत्तर दें ।

(क) छोटी लड़की चाँद से क्या बातें कर रही है ?

(ख) यदि अक्षर नहीं होते तो मानव जाति का क्या होता ?

(ग) धरती की उत्पत्ति के बारे में बताएँ ।

(घ) प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं ?

(ङ) छोटी लड़की चाँद की किस बीमारी की बात कर रही है जो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती ?

प्रश्न-3 निम्न रिक्त स्थानों को भरिए ।

(क) रचना के आधार पर शब्द केभेद हैं ।

(ख) 'आँख' शब्द शब्द का तद्भव रूप है ।

प्रश्न-4 निम्न वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद भी लिखें ।

(क) राम जी को चौदह वर्ष का वनवास भोगना पड़ा ।

(ख) कठिन परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है ।

(ग) व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार है ।

प्रश्न-5 कुसंगति से बचने की सलाह देते हुए अपने फुफेरे भाई को पत्र लिखिए ।

प्रश्न-6 संकेत बिन्दुओं के आधार पर निम्नलिखित विषय पर 80-100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखें ।

अंफान तूफान

संकेत बिंदु- भूमिका, प्रभावित क्षेत्र, तूफान से पूर्व की तैयारियाँ, तूफान के पश्चात बचाव कार्य,
निष्कर्ष